



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197]  
No. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 1978/अश्विन 14, 1900  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 1978/ASVINA 14, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

(वाणिज्य विभाग)

PUBLIC NOTICE NO. 74-ITC(PN)/78

New Delhi, the 6th October, 1978

सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई.टी.सी.(पी.एन.)/78

IMPORT TRADE CONTROL

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1978

Subject : Last date for filing applications for automatic licences by Actual Users (Industrial) during April 1978—March 1979.

आयात व्यापार नियंत्रण

File No. IPC/3/15/78.—Attention is invited to para 192 in Chapter 20 of Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978, according to which the last date for submission of applications for "Automatic" Licences by Actual Users (Industrial) was 30th September, 1978.

2. On the basis of representations received, it has been decided to extend the said last date upto 31st October, 1978.

विषय :—अप्रैल 1978—मार्च 1979 के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा आटोमैटिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि।

सार्वजनिक सूचना सं. 75-आई.टी.सी.(पी.एन.)/78

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1978

विषय :—ब्रिटीश बँजीन/साइकल बँजीन का आयात।

सं. आई.पी.सी./3/15/78.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 22-आई.टी.सी.(पी.एन.)/78 दिनांक 30 अप्रैल, 1978 के अंतर्गत प्रकाशित 1978-79 की आयात-नीति के अध्याय 20 में पैरा 192 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा "आटोमैटिक" लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1978 थी।

सं. आई.पी.सी./65/5/78.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 61-आई.टी.सी. (पी.एन.)/78, दिनांक 17 अगस्त, 1978 के पैरा 3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर, उपर्युक्त अन्तिम तारीख को 31 अक्टूबर, 1978 तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

701 GX/78

(1073)

100-21105  
7/10/80

2. इस संबंध में किए गए प्रतिवेदनों के आधार पर सार्वजनिक सूचना सं. 61-आई.टी.सी. (पी.एन.)/78, दिनांक 17 अगस्त, 1978 में वृद्धि किए गए शब्द "भारतीय पत्तनों पर" उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से हटाने का निश्चय किया गया है।

3. उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 58-आई.टी.सी. (पी.एन.)/78, दिनांक 3 अगस्त, 1978 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है। प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर यह भी निश्चय किया गया है कि पात्र वास्तविक उपयोक्ता उसी रासायनिक विशिष्टीकरण के डोडेसिल बेंजीन का आयात कर सकते हैं, किन्तु, वे विभिन्न विनिर्माण के हैं जैसे "आरॉनोइट-56" और "आरॉनोइट-60"।

4. सार्वजनिक सूचना सं. 58-आई.टी.सी. (पी.एन.)/78, दिनांक 3 अगस्त, 1978 और 61-आई.टी.सी. (पी.एन.)/78, दिनांक 17 अगस्त, 1978 तदनुसार संशोधित किए गए समझे जाएं।

क.व. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

# **PUBLIC NOTICE NO. 75-ITC(PN)/78**

New Delhi, the 6th October, 1978

Subject : Import of Dodecyl Benzene/Linear Benzene.  
File No. IPC/65/5/78-79.—Attention is invited to para 3 of the Department of Commerce Public Notice No. 61—ITC(PN)/78, dated the 17th August, 1978.

2. On the basis of representations made in this regard, it has been decided to delete the words "at Indian Ports" appearing in Public Notice No. 61-ITC(PN)/78, dated the 17th August, 1978 with effect from the date of issue of the said Public Notice.

3. Attention is also invited to Public Notice No. 58-ITC(PN)/78 dated the 3rd August, 1978 on the above subject. On the basis of representations received, it has also been decided that the eligible Actual Users can import Dodecyl Benzene having the same chemical specification but of different manufactures as "Oronite-56" and "Oronite-60".

4. The Public Notices No. 58-ITC(PN)/78 dated 3-8-78 and 61-ITC(PN)/78 dated 17-8-78 may be deemed to have been amended accordingly.

K. V. SESHADRI, Chief Controller